

राजस्थान विधान सभा
अष्टम सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के ग्राम थड़ोनल, तहसील अकलेरा में कथित रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को फर्जी तरीके से सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्यमंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011: एवं
- II- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा- 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011.

4. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा, दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का नवीनीकरण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- (II) श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
 - 1- विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के चौकड़ी ग्राम में हो रही अवैध ब्लास्टिंग रोकने बाबत;
 - 2- ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय को तहसील बनाने बाबत; एवं
 - 3- बजट भाषण 2012-2013 में की गई घोषणानुसार पंचायत समिति जवाजा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत ।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
“राजस्थान राज्य में कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।”
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।
- कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-12)

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	37- कृषि
2.	39- पशुपालन एवं चिकित्सा

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 अप्रैल, 2012